

चल रहे पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के संबंध में घोषणा/

DECLARATION REGARDING ONGOING COURSE / TRAINING

(कृपया उपयुक्त विकल्प पर टिक करें/Please tick appropriate option ✓)

<p>विकल्प 1 Option 1</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>मैं नीचे बताए अनुसार पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण ले रहा/रही हूँ: This is to state that I am pursuing / undergoing course / Training as mentioned below:</p> <p>पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम /Name of the Course / Training:</p> <p>अवधि/Duration: वर्ष/years..... महीने/months.</p> <p>वर्तमान स्थिति/Present Status:</p> <p>संस्थान का नाम/Name of the Institute:</p> <p>क्या कार्यालय से अनुमति ली गई है: (हां/नहीं) Whether taken permission from office: (Yes / No)</p> <p>यदि हां, तो संस्थान के निदेशक से एनओसी/अनुमति की प्रति संलग्न करें। If yes, enclose copy of NOC/ Permission from Director of the institute.</p>
<p>विकल्प 2 Option 2</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>मैं कोई पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ This is to state that I am not pursuing any course / training.</p>

हस्ताक्षर/Signature:

नाम/Name:

पद का नाम/Designation:

तारीख/Date:

स्थान/Place: